

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर की नियुक्ति की

ब्रैम्पटन, ओन्टारियो (11 फरवरी, 2022) – चूंकि संगठन कोविड-19 (COVID-19) से कम्युनिटी की बहाली में हिमायत करते हुए अगले कदम उठा रहा है और अधिक मज़बूत तथा अधिक स्थिर भविष्य का आधार तैयार कर रहा है, इसलिए आज 11 फरवरी की अपनी मीटिंग में, सिटी काउंसिल (City Council) ने सर्वसम्मति से, पॉल मोरिसन (Paul Morrison) को इंटरिम सी.ए.ओ. (CAO) नियुक्त किया। जल्दी ही इस पद को स्थायी आधार पर भरने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

पॉल ने सिटी में, बाइलॉ एंड एन्फोर्समेंट (Bylaw & Enforcement) के डायरेक्टर और एक्टिंग लेजिसलेटिव सर्विसिज कमिशनर (Acting Legislative Services Commissioner) के तौर पर लीडरशिप भूमिकाएं निभाई हैं। वे, हैमिल्टन पुलिस सर्विस (Hamilton Police Service) में पूर्व सुपरडेंट थे। पॉल ने, कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, बाइलॉ टीम का नेतृत्व करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

डेविड बैरिक अब, नए अवसरों की तरफ आगे बढ़ गए हैं। हमारी काउंसिल, महामारी के दौरान सिटी का नेतृत्व करने में डेविड बैरिक के अनथक प्रयासों के अलावा, हमारे संगठन और कम्युनिटी में उनके योगदानों के लिए उनका धन्यवाद करती है और उन्हें मान्यता देती है। इन योगदानों में शामिल हैं, मैक्लीन्स (Macleans) के द्वारा कैंनेडा की बेस्ट कम्युनिटीज 2021 (Canada's Best Communities 2021) में से एक के तौर पर और कैंनेडा के बेस्ट इंप्लायर्स 2021 (Canada's Best Employers 2021) में एक के तौर पर हाल ही की रैंकिंग्स।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उन कामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो कम्युनिटी के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं, इस टर्म ऑफ काउंसिल की प्रायोरिटीज (Term of Council's Priorities) के महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित है।

हवाले

“मेरे द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में, जिसकी काउंसिल के सभी मेम्बर्स के द्वारा हिमायत की गई, हमने सर्वसम्मति से, कोविड-19 और हमारी आर्थिक बहाली में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का नेतृत्व करने के लिए, पॉल मोरिसन का चयन किया है। लेजिसलेटिव सर्विसिज, बाइलॉ एंड एन्फोर्समेंट में उनका अनुभव और पॉलिसिंग, उन्हें हमारी काउंसिल का इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होने के लिए, बेजोड़ ढंग से योग्य बनाती है। हमें पॉल पर पूरा भरोसा है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca